

**प्रेस नोट थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर दिनांक 10.01.2021**

**शातिर वाहन चोर, चोरी की मोटरसाइकिल व 04 पेटी देशी शराब के साथ गिरफ्तार**

पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देशन में जनपद में घटित घटनाओं में गिरफ्तारी एवम बरामदगी हेतु श्रीमान् पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में व श्रीमान् पुलिस अधीक्षक अपराध के पर्यवेक्षण में व श्रीमान् क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा के कुशल नेतृत्व मे पिपराइच पुलिस टीम को लगाया गया था । दिनांक 09.01.2021 को थानाध्यक्ष दिनेश कुमार मिश्र उ0नि0 हरेराम यादव, उ0नि0 सत्यप्रकाश त्रिपाठी, उ0नि0 ज्ञानप्रकाश शुक्ला, हे0का0 सुरेन्द्र तिवारी हे0का0 शिवप्रकाश सिंह के साथ तलाश वाँछित अपराधी, व संदिग्ध व्यक्ति के क्षेत्र में मामूर था कि जरिये मुखबीर खास सूचना मिली शातिर वाहन चोर व नकबजन अपराधियों का एक गिरोह का एक सदस्य जो चोरी की मोटर साईकिल के साथ व देशी शराब की दुकान से चोरी की गयी देशी शराब चोरी कर उसे बेचने के लिए जा रहा है कि सूचना पर हैदरगंज चौराहे पर छूप कर आने का इन्तजार किया मुखबिर द्वारा इशारा किये गए व्यक्ति को एक बारगी दबिश देकर गिरफ्तार किया गया उसके पास से कैण्ट थाना जनपद गोरखपुर से चोरी कि गई एक अदद मोटर साईकिल UP53AU 0096 हिरो पैशन प्रो जिसके सम्बन्ध में थाना कैण्ट पर मु0अ0सं0 1401/2020 धारा 379 भादवि0 पंजीकृत है व थाना पिपराइच के मु0अ0सं0 951/2020 धारा 457/380/427 भादवि0 से सम्बन्धित 2 पेटी देशी शराब ठेके की व मु0अ0सं0 954/20 धारा 457/380 भादवि0 से सम्बन्धित 2 पेटी देशी शराब ठेके की बरामद हुई पकड़े गये अभियुक्त का नाम पूछा गया तो उसने अपना नाम सोनु यादव उर्फ विरेन्द्र यादव पुत्र दयाराम यादव निवासी हरसेवकपुर नं0 2 टोला दहला थाना गुलहरिया जनपद गोरखपुर बताया ।

**गिरफ्तार किये गये अभियुक्त का नाम पता-**

1. सोनु यादव उर्फ विरेन्द्र यादव पुत्र दयाराम यादव निवासी हरसेवकपुर नं0 2 टोला दहला थाना गुलहरिया जनपद गोरखपुर

**गिरफ्तारी का दिनांक , समय व स्थान**

**09.01.2021 समय 16.00 बजे , बहद हैदरगंज चौराहा के पास**

**बरामदगी-**

- 1- कैण्ट थाना जनपद गोरखपुर से चोरी कि गई एक अदद मोटर साईकिल UP53AU 0096 हिरो पैशन प्रो
- 2- 04 पेटी देशी शराब ठेके की सम्बन्धित मु0अ0सं0 951/2020 व मु0अ0सं0 954/2020 थाना पिपराइच, गोरखपुर

**गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम का नाम-**

1. थानाध्यक्ष दिनेश कुमार मिश्र -थाना पिपराइच, गोरखपुर
2. उ0नि0 पवन कुमार प्रधान, -थाना पिपराइच, गोरखपुर
3. उ0नि0 हरेराम सिंह यादव, -थाना पिपराइच, गोरखपुर
4. उ0नि0 सत्यप्रकाश त्रिपाठी, -थाना पिपराइच, गोरखपुर
5. उ0नि0 ज्ञानप्रकाश शुक्ला, -थाना पिपराइच, गोरखपुर
6. हे0का0 सुरेन्द्र तिवारी, -थाना पिपराइच, गोरखपुर
7. हे0का0 शिवप्रकाश सिंह, -थाना पिपराइच, गोरखपुर